

**टाप-10 अभियुक्त गौरव गुप्ता उर्फ विवेक गुप्ता सहित 01 अन्य अभियुक्त को लालू वर्मा को थाना रामचन्द्र पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, अवैध तमंचा देशी व एक जिन्दा कारतूस व नाजायज चाकू बरामदा**

एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्रों के विरुद्ध हेतु चलाये जा रहे अभियान व त्योंहारो के मद्देनजर थाना क्षेत्रों में जनपदीय थाना पुलिस द्वारा रखी जा रही सतर्क दृष्टि के क्रम में, श्री संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में, श्री प्रवीण कुमार क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में व संजय कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना रामचन्द्र मिशन के कुशल नेतृत्व में थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस टीम द्वारा टाप-10 अभियुक्त गौरव गुप्ता उर्फ विवेक गुप्ता सहित 01 अन्य अभियुक्त को लालू वर्मा को अवैध तमंचा देशी व एक जिन्दा कारतूस व नाजायज चाकू बरामद किया गया।

1- दिनांक 08.11.2020 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामचन्द्र मिशन क्षेत्र से त्यागी बाबा आश्रम के पास रौसर कोठी जाने वाले रास्ते से थाना पर चिन्हित टाप-10 अभियुक्त गौरव गुप्ता उर्फ विवेक गुप्ता पुत्र रामरीत निवासी ग्राम रौसर कोठी थाना आर0सी0 मिशन शाहजहाँपुर उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर का बरामद हुआ जिस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 440/20 धारा 3/25 A ACT पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।

2- दिनांक 08.11.2020 को थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस टीम द्वारा रिलायस गेट सामने एटीएम के पास से अभियुक्त लालू वर्मा पुत्र गिरजा शंकर निवासी मो0 हुसैनपुरा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू का बरामद हुआ जिस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 441/20 धारा 4/25 A ACT पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।

**अपराध का तरीका: -**

1- गौरव गुप्ता उर्फ विवेक गुप्ता पुत्र रामरीति निवासी रौसर कोठी थाना आर0सी0 मिशन शाहजहाँपुर उम्र करीब 28 वर्ष एक शातिर किस्म का टाप-10 अपराधी है जो लूटपाट करने जैसे अपराध करता है।

**बरामदगी:—**

1. एक अदद तमंचा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर का बरामद होना
2. एक अदद नाजायज चाकू का बरामद होना।

**आपराधिक इतिहास: गौरव गुप्ता उर्फ विवेक गुप्ता उपरोक्त**

1. मु0अ0सं0 282/19 धारा 392/411 आईपीसी
2. मु0अ0सं0 05/20 धारा 3/25 A ACT
3. मु0अ0सं0 257/20 धारा 3/25 A ACT

**पुलिस टीम का विवरण: -**

1. उ0नि0 श्री सुशील कुमार विश्रोई थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाह0
2. का0 523 राजकुमार थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाह0
3. का0 1998 नरेन्द्र सिंह थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 431 सर्वेश कुमार थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर
5. का0 417 अंकित कुमार थाना रामचन्द्र मिशन जपपद शाहजहाँपुर

